

श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा
Śrī Viṣṇukumāra Mahāmuni Pūjā

कविश्री कुमरेश
Kaviśrī Kumarēśa

(लावनी छन्द)

श्री योगी विष्णुकुमार बाल-वैरागी |
तप-बल से पावन ऋद्धि-विक्रिया जागी ||

सुन मुनियों पर उपसर्ग स्वयं अकुलाये |
हस्तिनापुर वे वात्सल्य-भरे हिये आये ||

कर दिया दूर सब कष्ट साधना-बल से |
पा गये शांति सब साधु अग्नि के झुलसे ||

जन-जन ने जय-जयकार किया मन भाया |
मुनियों को दे आहार स्वयं भी पाया ||
हैं वे मेरे आदर्श सर्वदा स्वामी |
मैं उनकी पूजा करूँ बनूँ अनुगामी ||

वे दें मुझमें यह शक्ति भक्ति-प्रभु पाऊँ |
मैं कर आत्म-कल्याण मुक्त हो जाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनि ! अत्र अवतर ! अवतर ! संवौषट् (आह्वानम्)
ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनि ! अत्र तिष्ठ ! तिष्ठ ! ठ ! ठ ! (स्थापनम्)
ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनि ! अत्र मम सन्निहितो भव ! भव ! वषट् ! (सन्निधिकरणम्)
(lāvanī chanda)

śrī yōgī viṣṇukumāra bāla-vairāgī |
Tapa-bala sē pāvana ṛd'dhi-vikriyā jāgī ||

Suna muniyōrṁ para upasarga svayaṁ akulāyē |
Hastināpura vē vātsalya-bharē hiya āyē ||

Kara diyā dūra saba kaṣṭa sādhanā-bala sē |
Pā gayē śānti saba sādhu agni kē jhulasē ||

Jana-jana nē jaya-jayakāra kiyā mana bhāyā |
Muniyōrṁ kō dē āhāra svayaṁ bhī pāyā ||

Haiṁ vē mērē ādarśa sarvadā svāmī |
Maiṁ unakī pūjā karūrṁ banūrṁ anugāmī ||

Vē dēm mujhamēm yaha śakti bhakti-prabhu pā'ūrṁ |
Maiṁ kara ātama-kalyāṇa mukta hō jā'ūrṁ ||

Ōrṁ hrīm śrīviṣṇukumāramuni ! Atra avatara ! Avatara ! Sanvauṣaṭ ! (Āhvānam)
ōrṁ hrīm śrīviṣṇukumāramuni ! Atra tiṣṭha ! Tiṣṭha ! Ṭha ! Ṭha ! (Sthāpanam)
ōrṁ hrīm śrīviṣṇukumāramuni ! Atra mama sannihitō bhava ! Bhava ! Vaṣaṭ ! (Sannidhikaraṇam)

(चाल जोगीरासा)

श्रद्धा की वापी से निर्मल, भावभक्ति-जल लाऊँ ।
 जनम-मरण मिट जायें मेरे, इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

(cāla jōgīrāsā)

śrad'dhā kī vāpī sē nirmala, bhāvabhakti-jala lā'ūṁ |
 Janama-maraṇa miṭa jāyēm mērē, isasē vinata caṛhā'ūṁ ||
 Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē |
 Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ||

Ōm hrīm śrīviṣṇukumāramunayē janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā |1|

मलयागिरि धीरज से सुरभित, समता-चंदन लाऊँ ।
 भव-भव की आताप न हो यह, इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Malayāgiri dhīraja sē surabhita, samatā-candana lā'ūṁ |
 Bhava-bhava kī ātāpa na hō yaha, isasē vinata caṛhā'ūṁ ||
 Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē |
 Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ||

Ōm hrīm śrīviṣṇukumāramunayē sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā |2|

द्रकिरण-सम आशाओंके, अक्षत सरस नवीने ।
 अक्षय-पद मिल जाये मुझको, गुरु-सन्मुख धर दीने ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ३।

Candrakiraṇa-sama āśā'ōm kē, akṣata sarasa navīnē |
 Akṣaya-pada mila jāyē mujhakō, guru-sanmukha dhara dīnē ||
 Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē |
 Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ||

Ōm hrīm śrīviṣṇukumāramunayē akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|

उर-उपवन से चाह-सुमन चुन, विविध मनोहर लाऊँ ।
 व्यथित करे नहिं कामवासना, इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये कामबाण-विध्वंसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Ura-upavana sē cāha-sumana cuna, vividha manōhara lā'ūṁ |
 Vyathita karē nahim kāmavāsana, isasē vinata caṛhā'ūṁ ||
 Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē |
 Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ||

Ōm hrīm śrīviṣṇukumāramunayē kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā |4|

नव-नव व्रत के मधुर रसीले, मैं पकवान बनाऊँ ।
 क्षुधा न बाधा यह दे पाये, इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Nava-nava vrata kē madhura rasīlē, mair̥m pakavāna banā'ūṁ ।
Kṣudhā na bādhā yaha dē pāyē, isasē vinata caṛhā'ūṁ ॥
Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē ।
Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ॥

Om hrīm śrīviṣṇukumāramunayē kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyam̐ nirvapāmīti svāhā ।5।

मैं मन का मणिमय दीपक ले, ज्ञान-वातिका जाऊँ ।
 मोह-तिमिर मिट जाये मेरा, गुरु-सन्मुख उजियाऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये मोहतिमिर-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Mair̥m mana kā maṇimaya dīpaka lē, jñāna-vātikā jārūṁ ।
Mōha-timira miṭa jāyē mērā, guru-sanmukha ujiyārūṁ ॥
Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē ।
Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ॥

Om hrīm śrīviṣṇukumāramunayē mōhatimira-vināśanāya dīpam̐ nirvapāmīti svāhā ।6।

ले विराग की धूप सुगन्धित, त्याग-धूपायन खेऊँ ।
 कर्म आठ का ठाठ जलाऊँ, गुरु के पद नित सेऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Lē virāga kī dhūpa sugandhita, tyāga-dhūpāyana khē'ūṁ ।
Karma āṭha kā ṭhāṭha jalā'ūṁ, guru kē pada nita sē'ūṁ ॥
Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē ।
Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ॥

Om hrīm śrīviṣṇukumāramunayē aṣṭakarma-dahanāya dhūpam̐ nirvapāmīti svāhā ।7।

पूजा सेवा दान और स्वाध्याय, विमल-फल लाऊँ ।
 मोक्ष विमल-फल मिले इसी से, विनत गुरु-पद ध्याऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वंदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये मोक्षपफल-प्राप्तये पफलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Pūjā sēvā dāna aura svādhyāya, vimala-phala lā'ūṁ ।
Mōkṣa vimala-phala milē isī sē, vinata guru-pada dhyā'ūṁ ॥
Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē ।
Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ॥

Om hrīm śrīviṣṇukumāramunayē mōkṣaphala-prāptayē phalam̐ nirvapāmīti svāhā ।8।

यह उत्तम वसु-द्रव्य संजोये, हर्षित भक्ति बढ़ाऊँ ।
 मैं अनर्घ्य-पद को पाऊँ, गुरूपद पर बलि बलि जाऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वदूँ, यति-रक्षा-हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदय में मेरे, अभिनव-ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये अनर्घ्यपद-प्राप्तये अघ्यर् निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Yaha uttama vasu-dravya sañjōyē, harṣita bhakti baṛhā'ūṁ |
Maiṁ anarghya-pada kō pā'ūṁ, gurupada para bali bali jā'ūṁ ॥
Viṣṇukumāra munīśvara vandūṁ, yati-rakṣā-hita āyē |
Yaha vātsalya hṛdaya mēm mērē, abhinava-jyōti jagāyē ॥

Ōm hrīm śrīviṣṇukumāramunayē anarghyapada-prāptayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā ।9।

जयमाला Jayamālā

(दोहा)

श्रावण-शुक्ला पूर्णिमा, यति-रक्षा-दिन जान ।
 रक्षक विष्णु-मुनीश की, यह गुणमाल महान् ॥१॥

(dōhā)

śrāvaṇa-śuklā pūrṇimā, yati-rakṣā-dina jāna |
Rakṣaka viṣṇu-munīśa kī, yaha guṇamāla mahān ॥1॥

(पदधरि छन्द)

जय योगीराज श्री विष्णु धीर, आकर जिन्ह हरदी साधु-पीर ।
 हस्तिनापुर वे आये तुरंत, कर दिया विपत का शीघ्र अंत ॥२॥
 वे ऋद्धि सिद्धि-साधक महान्, वे दयावान वे ज्ञानवान ।
 धर लिया स्वयं वामन-सरूप, चल दिये विप्र बनकर अनूप ॥३॥

पहुँचे बलि-नृप के राजद्वार, वे तेज-पुंज धर्मावतार ।
 आशीष दिया आनंदरूप, हो गया मुदित सुन शब्द भूप ॥४॥
 बोला वर माँगो विप्रराज, दूँगा मनवाँछित द्रव्य आज ।
 पग-तीन भूमि याची दयाल, बस इतना ही तुम दो नृपाल ॥५॥

नृप हँसा समझ उनको अजान, बोला यह क्या लो और दान ।

इससे कुछ इच्छा नहीं शेष, बोले वे ये ही दो नरेश ॥६॥

संकल्प किया दे भूमि-दान, ली वह मन में अतिमोद मान ।
 प्रगटाई अपनी ऋद्धि-सिद्धि, हो गई देह की विपुल-वृद्धि ॥७॥

दो पग में नापा जग समस्त, हो गया भूप-बलि अस्त-व्यस्त ।
 इक पग को दो अब भूमिदान, बोले बलि से करुणा-निधान ॥८॥

नतमस्तक बलि ने कहा अन्य, है भूमि न मुझ पर हे अनन्य ।
 रख लें पग मुझ पर एक नाथ, मेरी हो जाये पूर्ण बात ॥९॥

कहकर 'तथास्तु' पग दिया आप, सह सका न बलि वह भार-ताप ।
 बोला तुरन्त ही कर विलाप, कर दें अब मुझको क्षमा आप ॥१०॥

मैं हूँ दोषी मैं हूँ अजान, मैंने अपराध किया महान् ।
 ये दुःखित किये सब साधु-संत, अब करो क्षमा हे दयावंत ॥११॥
 तब की मुनिवर ने दया- दृष्टि, हो उठी गगन से महावृष्टि ।

पा गये दग्ध वे साधु-त्राण, जन-जन के पुलकित हुए प्राण ॥१२॥
 घर-घर में छाया मोद-हास, उत्सव ने पाया नव-प्रकाश ।
 पीड़ित मुनियों का पूर्ण-मान, रख मधुर दिया आहारदान ॥१३॥
 युग-युग तक इसको रहे याद, कर-सूत्र बंधाया साहलाद ।
 बन गया पर्व पावन महान्, रक्षाबंधन सुन्दर निधान ॥१४॥
 वे विष्णु-मुनीश्वर परमसंत, उनकी गुण-गरिमा का न अंत ।
 वे करें शक्ति मुझको प्रदान, 'कुमरेश' प्राप्त हो आत्मज्ञान ॥१५॥

(Pad'dhari chanda)

jaya yōgīrāja śrī viṣṇu dhīra, ākara jinha hara dī sādhu-pīra ।
 Hastināpura vē āyē turanta, kara diyā vipata kā śīghra anta ॥2॥
 Vē ṛd'dhi sid'dhi-sādhaka mahān, vē dayāvāna vē jñānavāna ।
 Dhara liyā svayaṁ vāmana-sarūpa, cala diyē vipra banakara anūpa ॥3॥
 Pahuṁcē bali-nṛpa kē rājadvāra, vē tēja-puñja dharmāvatāra ।
 Āśīṣa diyā ānandarūpa, hō gayā mudita suna śabda bhūpa ॥4॥
 Bōlā vara māṁgō viprarāja, dūṁgā manavāṁchita dravya āja ।
 Paga-tīna bhūmi yācī dayāla, basa itanā hī tuma dō nṛpāla ॥5॥
 Nṛpa haṁsā samajha unakō ajāna, bōlā yaha kyā lō aura dāna ।
 Isasē kucha icchā nahīm śēṣa, bōlē vē yē hī dō narēśa ॥6॥
 Saṅkalpa kiyā dē bhūmi-dāna, lī vaha mana mēm atimōda māna ।
 Pragaṭā'i apanī ṛd'dhi-sid'dhi, hō ga'i dēha kī vipula-vṛd'dhi ॥7॥
 Dō paga mēm nāpā jaga samasta, hō gayā bhūpa-bali asta-vyasta ।
 Ika paga kō dō aba bhūmidāna, bōlē bali sē karuṇā-nidhāna ॥8॥
 Natamastaka bali nē kahā an'ya, hai bhūmi na mujha para hē anan'ya ।
 Rakha lēm paga mujha para ēka nātha, mērī hō jāyē pūrṇa bāta ॥9॥
 Kahakara 'tathāstu' paga diyā āpa, saha sakā na bali vaha bhāra-tāpa ।
 Bōlā turanta hī kara vilāpa, kara dēm aba mujhakō kṣamā āpa ॥10॥
 Maim hūṁ dōṣī maim hūṁ ajāna, mainē aparādha kiyā mahān ।
 Yē du:Khita kiyē saba sādhu-santa, aba karō kṣamā hē dayāvanta ॥11॥
 Taba kī munivara nē dayā- dṛṣṭi, hō uṭhī gagana sē mahāvṛṣṭi ।
 Pā gayē dagdha vē sādhu-trāṇa, jana-jana kē pulakita hu'ē prāṇa ॥12॥
 Ghara-ghara mēm chāyā mōda-hāsa, utsava nē pāyā nava-prakāśa ।
 Pīṛita muniyōm kā pūrṇa-māna, rakha madhura diyā āhāradāna ॥13॥
 Yuga-yuga taka isakō rahē yāda, kara-sūtra bandhāyā sāhlāda ।
 Bana gayā parva pāvana mahān, rakṣābandhana sundara nidhāna ॥14॥
 Vē viṣṇu-muniśvara paramasanta, unakī guṇa-garimā kā na anta ।
 Vē karēm śakti mujhakō pradāna, 'kumarēśa' prāpta hō ātmajñāna ॥15॥

(घत्ता छंद)

श्री मुनि विज्ञानी आत्म-ध्यानी, मुक्ति-निशानी सुख-दानी ।
 भवताप विनाशे सुगुण-प्रकाशे, उनकी करुणा कल्याणी ॥
 ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये जयमाला-पूर्णाध्यर् निर्वपामीति स्वाहा ।

(Ghattā chanda)

śrī muni vijñānī ātama- dhyānī, mukti-niśānī sukha-dānī |
Bhavatāpa vināśē suguṇa-prakāśē, unakī karuṇā kalyānī ||
Ōm hrīm śrīviṣṇukumāramunayē jayamālā-pūrṇārghyaṁ nirvapāmīti svāhā |

(दोहा)

विष्णुकुमार -मुनीश को, जो पूजे धर-प्रीत |
वह पावे 'कुमरेश' शिव, और जगत् में जीत ||

(Dōhā)

viṣṇukumāra -munīśa kō, jō pūjē dhara-prīta |
Vaha pāvē 'kumarēśa' śiva, aura jagat mēm jīta ||

॥ इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत् ॥
|| Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipēt ||

* * * * *